

कक्षा 4 हिन्दी (वीणा)

अभ्यास प्रश्न पत्र – 1

(सत्र – 2026-27)

निर्धारित समय: 2 घंटे

अधिकतम अंक: 50

सामान्य निर्देश:

1. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
2. इस प्रश्न पत्र में चार खंड हैं, खंड-अ, खंड-ब, खंड-स और खंड-द।
3. प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दर्शाए गए हैं।

खंड-अ (पठन)

1. नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दें: [5×1=5]
नई उड़ान एक नन्ही चिड़िया अपने छोटे-से घोंसले में रहती थी। उसे लगता था कि उसका घोंसला और उसके आसपास की कुछ शाखाएँ ही पूरी दुनिया हैं। एक दिन उसने साहस करके घोंसले से बाहर उड़ान भरी। ऊपर से उसे हरे-भरे पेड़, चमकती नदी, दूर के पहाड़ और खुले आकाश दिखाई दिए। वह बहुत प्रसन्न हुई। उसे समझ आया कि दुनिया बहुत बड़ी है और हर जगह कुछ नया सीखने को मिलता है। उसने तय किया कि वह डरकर पीछे नहीं हटेगी, बल्कि अपनी जिज्ञासा के साथ नई जगहों को देखेगी और अनुभवों से सीखेगी।

1. चिड़िया को पहले अपनी दुनिया कैसी लगती थी?

(क) बहुत बड़ी

(ख) बहुत छोटी

(ग) डरावनी

(घ) अनजान

2. चिड़िया ने घोंसले से बाहर निकलकर क्या देखा?

(क) केवल घर

(ख) हरे-भरे पेड़, नदी और पहाड़

(ग) केवल खेल का मैदान

(घ) केवल बादल

3. चिड़िया के मन में कौन-सा भाव जागा?

(क) आलस्य

(ख) जिज्ञासा

(ग) क्रोध

(घ) ईर्ष्या

4. चिड़िया ने क्या तय किया?

(क) हमेशा घोंसले में रहना

(ख) नई जगहों को देखकर सीखना

(ग) उड़ना छोड़ देना

(घ) किसी से बात न करना

5. अनुच्छेद से क्या सीख मिलती है?

(क) नई चीजों से डरना चाहिए

(ख) अनुभव और साहस से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं

(ग) घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए

(घ) केवल पक्षी ही सीख सकते हैं

2. नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दें:

[5×1=5]

स्वस्थ भोजन की समझ एक दिन कक्षा में बच्चों से उनके भोजन के बारे में पूछा गया। कुछ बच्चे केवल तली हुई चीजें और बहुत अधिक मिठाई खाना पसंद करते थे। अध्यापक ने समझाया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन में अनाज, दाल, सब्जियाँ, फल और दूध से बने पदार्थों का उचित मात्रा में होना आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि अधिक भोजन करने से पेट को परेशानी हो सकती है। बच्चों ने तय किया कि वे ताजा भोजन खाएँगे, सलाद को अपने भोजन में शामिल करेंगे और पानी खूब पीएँगे। अब वे भोजन करते समय स्वाद के साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने लगे।

1. अध्यापक ने बच्चों को किस बात का ध्यान रखने को कहा?

- (क) केवल मिठाई खाने को
- (ख) संतुलित और स्वस्थ भोजन लेने को
- (ग) भोजन छोड़ने को
- (घ) केवल तली चीजें खाने को

2. भोजन में किन चीजों को शामिल करने की बात कही गई?

- (क) केवल चिप्स
- (ख) अनाज, दाल, सब्जियाँ और फल
- (ग) केवल मिठाई
- (घ) केवल ठंडे पेय

3. अधिक भोजन करने से क्या परेशानी हो सकती है?

- (क) शरीर बहुत प्रसन्न होता है
- (ख) पेट को परेशानी हो सकती है
- (ग) पढ़ाई तेज होती है
- (घ) नींद कम आती है

4. बच्चों ने कौन-सी अच्छी आदत अपनाई?

- (क) ताजा भोजन और सलाद खाना
- (ख) भोजन छोड़ देना
- (ग) केवल मिठाई खाना
- (घ) पानी कम पीना

5. अनुच्छेद का मुख्य संदेश क्या है?

- (क) स्वाद ही सबसे जरूरी है
- (ख) स्वस्थ रहने के लिए भोजन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों का ध्यान रखना चाहिए
- (ग) केवल फल ही खाना चाहिए
- (घ) भोजन केवल खेल के बाद करना चाहिए

खंड-ब (लेखन)

3. संवाद लेखन –

[5]

कल्पना कीजिए कि आप विद्यालय के बगीचे में एक नीम के पेड़ के पास बैठे हैं। नीम की डालियाँ आपसे बातचीत करने लगती हैं। नीचे दिए गए आरंभ को आगे बढ़ाते हुए संवाद लिखिए— नीम – अरे! आज तुम मेरे पास कैसे आए/आई हो?

आप – _____

नीम – _____

आप – _____

नीम – _____

आप – _____

नीम – _____

4. नीचे दी गई कहानी की शुरुआत को ध्यान से पढ़िए और अपनी कल्पना के अनुसार इसे लगभग 80-100 शब्दों में पूरा कीजिए। कहानी को एक उचित शीर्षक भी दीजिए और अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा भी लिखिए। [5]

“एक दिन एक बच्चा अपने घर से दूर घूमते-घूमते एक पुराने बगीचे में पहुँच गया। वहाँ उसे एक छोटा-सा पौधा दिखाई दिया, जिसकी पत्तियाँ मुरझाई हुई थीं। पास ही पानी से भरी एक छोटी बाल्टी रखी थी। बच्चे ने पौधे को ध्यान से देखा और सोचा कि...”

या

कल्पना कीजिए कि आपको एक दिन पक्षियों की भाषा समझ में आने लगी। आप सबसे पहले किस पक्षी से बात करेंगे? वह आप से क्या कहेगा और आप उसे क्या उत्तर देंगे? अपने विचारों को 80-100 शब्दों के एक अनुच्छेद में लिखिए। लिखते समय ध्यान रखें—

1. आप किस पक्षी से बात करेंगे और क्यों?
2. वह पक्षी अपने जीवन के बारे में क्या बताएगा?
3. आप पक्षियों की सहायता के लिए क्या करेंगे?

खंड-स (व्याकरण)

5. उदाहरण की सहायता से रिक्त स्थान भरिए—

[5×1=5]

सु + कुमार = सुकुमार = कोमल अंगों वाला

(क) सु + योग्य = _____ = _____

(ख) सु + यश = _____ = _____

(ग) सु + कर्म = _____ = _____

(घ) सु + वास = _____ = _____

(ङ) सु + दर्शन = _____ = _____

6. निर्देशानुसार उत्तर दीजिए—

[5×1=5]

1. विलोम अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान भरिए – खाने में ताजा भोजन अधिक और _____ भोजन कम खाना चाहिए।
2. 'इत' जोड़कर नया शब्द बनाइए – नियम – _____
3. मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए – आसमान छूना – _____
4. उपसर्ग और मूल शब्द से नया शब्द बनाइए – भर + पेट = _____; वाक्य – _____
5. आगे आने वाले समय को बताने वाला एक वाक्य लिखिए – _____

खंड-द (पाठ्यपुस्तक)

7. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें—

[10×1 = 10]

- (i) 'चिड़िया का गीत' में चिड़िया को संसार बहुत बड़ा कब लगा?
- (ii) घोंघा बगीचे से बाहर क्यों जाना चाहता था?
- (iii) नीम की कौन-सी विशेषता आपको सबसे अच्छी लगती है? कारण सहित लिखिए।
- (iv) 'हमारा आहार' कविता में गर्मी के मौसम में किन खाद्य पदार्थों का सेवन करने की बात कही गई है?
- (v) 'आसमान गिरा' कहानी में शेर ने सभी जानवरों को क्यों रोक दिया?
- (vi) 'जयपुर से पत्र' में अमर ने जयपुर में किन दो प्रमुख स्थानों का उल्लेख किया?
- (vii) पत्र लिखते समय संबोधन और अभिवादन क्यों आवश्यक हैं?
- (viii) घोंघे ने बड़ के पेड़ को देखकर आश्चर्य क्यों किया?
- (ix) 'हमारा आहार' के अनुसार अधिक भोजन करने का क्या परिणाम हो सकता है?
- (x) 'आसमान गिरा' कहानी से हमें कौन-सी सीख मिलती है?

8. किसी तीन के उत्तर दीजिए—

[3×1 = 3]

- (क) नीम प्रदूषित वायु को किस प्रकार शुद्ध करने में सहायता करता है?
- (ख) चिड़िया ने खुले आकाश में उड़कर क्या समझा?
- (ग) अमर ने आमेर के किले के बारे में क्या लिखा?
- (घ) 'हमारा आहार' में ताजे भोजन के बारे में क्या संदेश दिया गया है?

9. निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए—

[3]

- (क) 'आसमान गिरा' कहानी में खरगोश के स्थान पर यदि आप होते, तो पेड़ के नीचे हुई आवाज का पता लगाने के लिए क्या करते? अपने विचार लिखिए।

या

- (ख) 'नीम' कविता के आधार पर बताइए कि पेड़-पौधे हमारे जीवन के लिए क्यों उपयोगी हैं।

10. नीचे दिए गए पत्र के अंश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर अपनी समझ के अनुसार लिखिए— [4]

“पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम! आज हम जयपुर की सैर पर गए। सबसे पहले हमने हवामहल देखा। उसके बाद जंतर-मंतर गए। वहाँ कई रोचक यंत्र देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। अध्यापकों ने हमें हर जगह सावधानी से घूमने और सब कुछ ध्यान से देखने के लिए कहा। शाम को हमने राजस्थान का प्रसिद्ध दाल-बाटी चूरमा भी खाया।”

(क) अमर ने दिन की शुरुआत किस स्थान को देखकर की? _____

(ख) जंतर-मंतर देखकर अमर को कैसा अनुभव हुआ? _____

या

निम्नलिखित के बारे में दो-दो वाक्य लिखिए—

शीशमहल – _____

हवामहल – _____
